



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 2—मार्च 8, 2008, शनिवार/फाल्गुन 12—फाल्गुन 18, 1929
No. 10] NEW DELHI, MARCH 2—MARCH 8, 2008, SATURDAY/PHALGUNA 12—PHALGUNA 18, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

सा.का.निं. 36.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) सह-आयुक्त, सुरक्षा भर्ती नियम, 1994 के प्रतिस्थान के उपरांत, इस प्रकार के प्रतिस्थापन से पूर्व किए गए अथवा रोके गए कार्यों को छोड़कर, माननीय राष्ट्रपति द्वारा एतद्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) में सह-आयुक्त के पद की भर्ती प्रक्रिया को नियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) यह नियम नागर विमानन मंत्रालय (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) सह-आयुक्त भर्ती नियम, 2008 कहलाए जाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—यहां संलग्न पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में दी गई सूचना के अनुसार हैं।

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा, अन्य शैक्षिक योग्यता आदि.—उक्त पद की भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यताएं एवं अन्य संबंधित सूचनाएं उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में दी गई हैं।

4. अयोग्यता.—निम्न व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे,—

(क) वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसे स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पति/पत्नी जीवित हो।

(ख) वह व्यक्ति जिन्होंने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो।

बशर्ते कि, ऐसे व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी पर विवाह हेतु लागू व्यक्तिगत नियम के तहत ऐसा विवाह अनुमत होने एवं ऐसा करने के लिए दिए गए अन्य आधारों से संतुष्ट होने पर यदि केन्द्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर इस नियम के न लागू होने की छूट प्रदान कर दी जाए।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—केन्द्र सरकार द्वारा, आवश्यक या उचित समझे जाने पर, लिखित में कारण बताकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् आदेश के माध्यम से किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों की किसी भी धारा में छूट दी जा सकती है।

6. प्रतिबंध.—समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य आवश्यक छूटों को यह नियम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या दीर्घावधि सेवा के लाभ, केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य हैं ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सह-आयुक्त, सुरक्षा	13*(2008) *कार्यभार पर आधारित भिन्नता के अध्याधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ए' राजपत्रित गैर-मंत्रालयी,	8000-275-13500 रु.	चयन	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं अन्य शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है तो ?	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति पर जाने वालों के लिए 2 वर्ष	(9)	(10)
सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में, किस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन किया जाए।	(11)	(12)		
20% पदोन्नति द्वारा तथा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 80% प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा (सशस्त्र सेना बलों के कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियुक्ति)	पदोन्नति : 6500-200-10,500 के वेतनमान में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने इस ग्रेड में नियमित सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों तथा जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता हो। नोट : ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों जिन्होंने अपनी अर्हकारी या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, को जब पदोन्नति देने पर विचार किया जाए बशर्ते कि उनके पास ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा अवधि की आधी से अधिक अवधि या दो वर्ष, जो भी कम हो, की अपेक्षित अर्हकारी या पात्रता सेवा हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों, जो ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं, के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिविक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				

(12)

प्रतिनियुक्ति या समावेशन

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्रों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्यरत अधिकारी जो :

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदों पर कार्यरत हों; या
- (ii) मूल काडर या विभाग में 6500-10500 या इसके समान वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दिए गए ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो; तथा
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता व अनुभव प्राप्त हों :
 - (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इसके समान शैक्षिक योग्यता ।
 - (ii) नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन सहित सुरक्षा या आसूचना से संबंधित मामलों में तीन वर्षों का अनुभव ।

नोट : सहायक श्रेणी के जो विभागीय अधिकारी सीधे पदोन्नति की कतार में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से एकदम पहले समान या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में अन्य-पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक न हो । आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्रतिनियुक्ति या समावेश द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्षों से अधिक न हो ।

प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियुक्ति (सशस्त्र सेनाबल के कर्मियों के लिए)
लेफ्टिनेंट या कप्तान या इसके समान पद पर कार्यरत सशस्त्र सेनाबलों के कर्मी जो एक वर्ष की अवधि के अंदर सेवानिवृत्त या आरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले हों तथा जिनके पास उपर्युक्तानुसार शैक्षिक योग्यताएं व अनुभव हो, उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा । चुने जाने पर ऐसे अधिकारियों को उस दिनांक तक प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा जिस दिनांक को उन्हें सशस्त्र सेनाबल से कार्यमुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति पर कार्य कर सकते हैं । ऐसे पात्र अधिकारी इस पद के लिए वास्तविक चयन होत्रे से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा उनका स्थानांतरण रक्षित क्षेत्र में कर दिया जाता है तो उनकी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति आधार पर की जाएगी ।

(सिविल पदों के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनर्नियुक्ति ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति बनाई गई है, तो उसकी रचना किस प्रकार की है

भर्ती करते समय किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाए

(13)

(14)

समूह क विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित हैं :-

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है

- (i) अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष,
- (ii) सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन)-सदस्य
- (iii) निदेशक/उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय-सदस्य,

[फा. सं. ए-12018/16/2002-प्रशा./एसएस/एसएफएस]

एस. के. आर्य, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th February, 2008

G.S.R. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation and Tourism (Department of Civil Aviation) (Bureau of Civil Aviation Security) Assistant Commissioner of Security Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commissioner of Security (Civil Aviation) in the Bureau of Civil Aviation Security (Ministry of Civil Aviation), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Bureau of Civil Aviation Security) Assistant Commissioner of Security, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No Persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Commissioner of Security	* 13 (2008) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs.. 8000-275-13500	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruit		Educational and other qualifications required for direct recruit		Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)		(8)		(9)	(10)
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)	(12)
<p>Twenty per cent by Promotion failing which by deputation. Eighty per cent by Deputation or absorption (For Armed Forces personnel Deputation or re-employment)</p>	<p>Promotion : Security Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500 with five years of regular service in the grade and possessing a degree from a recognized University or equivalent. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation or Absorption : Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Central Police Organisations :</p> <p>(a) (i) Holding the analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Degree from a recognized University or equivalent; (ii) Three years' experience in matters relating to Security or Intelligence including framing or implementation of policies.</p> <p>Note : The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Deputation or Re-employment (For Armed Forces personnel) : The Armed Forces personnel holding the rank of Lieutenant or Captain or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the qualifications and experience as indicated above shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts)</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of the following :—	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.
(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman	
(ii) Commissioner of Security (Civil Aviation) —Member	
(iii) Director/Deputy Secretary M/o Civil Aviation —Member	

[F. No. A-12018/16/2002-Admn./SS/SFS]

S. K. ARYA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समाकलित मात्स्यिकी परियोजना (वर्ग-3) भर्ती नियम, 1973, को, जहाँ तक उनका संबंध कनिष्ठ विपणन सहायक और विपणन सहायक के पद से है और समाकलित मात्स्यिकी परियोजना (वर्ग-3) भर्ती नियम, 1974, को जहाँ तक उनका संबंध विक्रयकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के अधीन समाकलित मात्स्यिकी परियोजना में विक्रयकर्ता, कनिष्ठ विपणन सहायक और विपणन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समाकलित मात्स्यिकी परियोजना में विक्रयकर्ता, कनिष्ठ विपणन सहायक और विपणन सहायक भर्ती नियम, 2008. है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. विक्रयकर्ता	3*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	3050-75-3950- 80-4590 रु.	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	--	----------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनु- सूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान/गृह विज्ञान में बैचेलर डिग्री हो या मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (बी.एच.एस.सी.) में और साथ ही मत्स्य उत्पाद विपणन/ कैटरिंग में दो वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता। (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रत्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता ।

1. निदेशक, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —अध्यक्ष
2. उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन) समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य
3. विपणन अधिकारी समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ विपणन सहायक	1*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	4500-125-7000 रु.	अचयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान/गृह विज्ञान में बैचेलर डिग्री और साथ में किसी ख्याति प्राप्त संगठन का मत्स्य उत्पाद विपणन या कैटरिंग में दो वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विपणन में डिग्री या डिप्लोमा ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । प्रोन्नति : शून्य
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।		

(7)	(8)
त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खण्ड अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा विक्रयकर्ता जिसने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि और उनकी प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं :—	लागू नहीं होता।
<ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन), समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य 3. विपणन अधिकारी, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. विपणन सहायक	3*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	5000-150-8000 रु.	अचयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
13 से 27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान/गृह विज्ञान में बैचेलर डिग्री और मत्स्य उत्पाद विपणन या कैंटरिंग या समुद्री मात्स्यिकी में तीन वर्ष का अनुभव हो।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति : दो वर्ष। प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्ति : शून्य

(7)

और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधरित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अस्सम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)

वांछनीय : 1. प्राणी विज्ञान या मात्स्यिकी विज्ञान या गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री या केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई से स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विपणन में डिग्री या डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

33-1/3% प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भती द्वारा;
66-2/3 % सीधी भती द्वारा।

(12)

ऐसा कनिष्ठ विपणन सहायक जिसने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. निदेशक, समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —अध्यक्ष
2. उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन) समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य
3. विपणन अधिकारी समाकलित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन —सदस्य
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सहयोजित अधिकारी —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता।

[सं. 5/11/2007-एफ वाई-प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 21st February, 2008

G.S.R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Junior Marketing Assistant and Marketing Assistant and also in supersession of Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1974 in so far as they relate to the post of salesman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Salesman Junior Marketing Assistant and Marketing Assistant in the Integrated Fisheries Project, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Fisheries Project, Salesman, Junior Marketing Assistant and Marketing Assistant, Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applications.—These rules shall apply to the post as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their classification and the scales of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, to the said post age limit, qualifications and other matters relating the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these Rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Salesman	3 *(2008) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central 'Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75- 3950-80-4590	Not applicable	No

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Central Government servants upto 40 years in case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)	Essential : 1. Bachelor's Degree in Zoology/ Fishery Science/Home Science of a recognised University or Vocational Higher Secondary Education (VHSC) in Fish Processing Technology with two years experience in Marketing of Fish products or catering.	Not applicable	Two years
Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority/Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority/Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
Method of Recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(11)	(12)		
Direct recruitment	Not applicable		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)	(14)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Direct Recruits) consisting of :	Not applicable.		
1. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin	—Chairman		
2. Deputy Director, (Processing & Marketing) Integrated Fisheries Project, Cochin	—Member		
3. Marketing Officer, Integrated Fisheries Project, Cochin	—Member		
4. A Co-opted member from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes	—Member		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Marketing Assistant	01 *(2008) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs.4500-125-7000/-	Non-Selection	No
(7)	(8)	(9)	(10)		
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Central Government servants upto 40 years in case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Essential : 1. Bachelor's Degree in Zoology/Fishery Science/ Home Science of a recognised University with two years experience in Marketing of Fish products or catering in organization of repute. Desirable: Degree or Diploma in Marketing from a recognized Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age : No Educational Qualification: Yes	Direct recruits: Two years Promotees: Nil		
(11)	(12)				
Promotion failing which by direct recruitment.	Salesman with 13 years regular service in grade after appointment.				
(13)	(14)				
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Direct Recruits and considering promotion) consisting of : 1. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, (Processing & Marketing) Integrated Fisheries Project, Cochin —Member 3. Marketing Officer, Integrated Fisheries Project, Cochin —Member 4. A Co-opted member from Scheduled Castes/Scheduled Tribes —Member	Not applicable.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Marketing Assistant	03* (2008) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non-Ministerial.	Rs.5000-150-8000/-	Non-Selection	No

(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Central Government servants upto 40 years in case of General Candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential : Bachelor's Degree in Zoology/ Fishery Science/ Home Science of a recognised University with three years experience in Marketing of Fish products or catering or marine fisheries. Desirable: 1. Master Degree in Zoology or Fishery Science or Home Science or Post-Graduation Diploma Central Institute of Fisheries Education, Mumbai 2. Degree or Diploma in Marketing from a recognised Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of Candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age : No Educational Qualification: No	Direct recruits: Two years Promotees: Nil

(11)	(12)
33 1/3% by Promotion failing which by direct recruitment; 66 2/3% by direct recruitment.	Junior Marketing Assistant with 3 years regular service in grade after appointment.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Direct Recruits and considering promotion) consisting of : 1. Director, Integrated Fisheries Project, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, (Processing & Marketing) Integrated Fisheries Project, Cochin —Member 3. Marketing Officer, Integrated Fisheries Project, Cochin —Member 4. A Co-opted member from Scheduled Castes/ Scheduled Tribes —Member	Not applicable.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कनिष्ठ आशुलिपिक भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग के अधीन केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कनिष्ठ आशुलिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ आशुलिपिक	1*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित; अननुसचिवीय।	4000-100- 6000 रु.	चयन	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि काई हो	
(7)	(8)		(9)		(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति : केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, में ऐसे कनिष्ठ लिपिक ,—

(i) जिन्होंने 3050-4590 रुपए की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है;

(ii) जिन्होंने सीमित विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है ।

प्रतिनियुक्ति :-

(i) केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—

(क) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ख) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर 3050-4590 रुपए के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ii) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं रखते हैं :-

(क) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा ।

(ख) अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से श्रुतलेख लिखने और 30 शब्द प्रति मिनट की शुद्ध गति से टंकणमशीन पर प्रतिलेखन करने की क्षमता ।

वांछनीय : वर्ड प्रोसेसर एम.एस. वर्ड एम एस. आफिस और संबंधित साफ्टवेयर का ज्ञान ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टिकरण के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता ।

1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी

प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन

—अध्यक्ष

2. उप निदेशक, केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी

प्रशिक्षण संस्थान, चैन्नई

—सदस्य

3. उप-निदेशक, केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी

प्रशिक्षण संस्थान, विजाग

—सदस्य

4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन

—सदस्य

5. ऐसे केंद्रीय मात्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान का समूह 'क' अधिकारी, जहां समूह 'ग' अधिकारी कार्यरत है/कार्य करता है

—सदस्य

[फा. सं. 3-13/2002-मात्स्यकी-(प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2008

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Junior Stenographer (Group 'C') Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Stenographer in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Junior Stenographer (Group 'C') Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment age limit, and other qualifications etc.**—The Method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Steno-grapher	1* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000.	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational qualification and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(8)		(9)		(10)	(11)	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Promotion failing which deputation,	

6889708-5

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorp- tion to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Promotion : Junior Clerks in Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (i) with eight years regular service in the grade of Rs. 3050-4590; (ii) who qualify the limited departmental examination Deputation : (i) Officers under the Central Government holding :— (a) analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or (b) eight years of regular service in the scale of Rs. 3050-4590 on a regular basis in the parent cadre/department and (ii) Possessing educational qualification and other qualifications as under :— (a) Matriculation or equivalent examination (b) ability to take dictation in English with minimum speed of 80 words per minute and to transcribe on type-writer with an accurate speed of 30 words per minute Desirable : Knowledge of word processing MS Word/MS Office and related software	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Chennai —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Vizag —Member 4. Senior Administrative Officer/ Administrative Officer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin —Member 5. A Group 'A' officer in Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, where Group 'C' officer is working/ to work —Member	Not applicable.

[F. No. 3-13/2002-Fy.(Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मत्स्य उद्योग कर्म संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968, के जहां तक उसका संबंध चालक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) और स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार चालक (श्रेणी-2) और स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	------------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	1* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950- 80-4590 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
--	---	--	---------------------------------------

(7)	(8)	(9)	(10)
25 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा	1. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण हो। 2. हल्के, मध्यम और भारी यानों के लिए सिविल चालक अनुज्ञप्ति रखता हो। 3. हल्के, मध्यम और भारी यान चलाने का 3 वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(7)

चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता

1. निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन—अध्यक्ष
2. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई—सदस्य
3. उप निदेशक, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विजाग—सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी-II)	2*(2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	4000-100 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष		

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और भारी मोटर यानों को चलाने के लिए व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :</p> <p>(i) जिन्होंने मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या</p> <p>(ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद पर नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा यथा विहित समुचित स्तर का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता
1. निदेशक, केंद्रीय मत्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —अध्यक्ष	
2. उप-निदेशक, केंद्रीय मत्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चैन्नई—सदस्य	
3. उप-निदेशक, केंद्रीय मत्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विजाग—सदस्य	
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मत्स्यकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1)	3*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	4500-125-7000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष

(11)	(12)
(i) 66.67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; (ii) 33.33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसा स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और भारी मोटर यानों को चलाने के लिए व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।</p>

(12)

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (i) जिन्होंने मूल काडर विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने 4000—6000 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) के पद पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा यथा विहित समुचित स्तर का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति
जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —अध्यक्ष
2. उप-निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, चैन्नई—सदस्य
3. उप-निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, विजाग—सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मात्स्यिकी, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता

[फा. सं. 3-22/2000-एफ.वाई. (प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2008

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Driver, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Grade-I) in Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Staff Car Driver (Ordinary Grade), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Grade-I) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, and other qualifications etc.—The Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (i) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saying.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	1*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Non Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with instruction/orders issued by the Central Government)
						<p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>Note 2 : In respect of post to which the appointment is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.</p>

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			
(8)	(9)	(10)	(11)			
Essential : (i) A pass in 8th standard from a recognized school. (ii) Should possess a civil driving license for light, medium and heavy vehicles. (iii) Three years experience for driving light, medium and heavy vehicles.	Not applicable	Two years	Direct Recruitment			
In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
(12)	(13)	(14)				
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:— 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Chennai —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Vizag —Member 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin —Member	Not applicable				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	2*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)	(10)	(11)			
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by Deputation			

(12)	(13)	(14)
Promotion Staff Car Driver (Ordinary grade) with nine years regular service in the grade and subject to passing of trade test to drive heavy motor vehicles. Deputation Officials under the Central/State Governments. (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department, <p style="text-align: center;">OR</p> (ii) with nine years' of regular service in the post of Staff Car Driver (Ordinary grade) in the scale of pay of Rs. 3050-4590 subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as prescribed by the Government. Note : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Chennai —Member 3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Vizag —Member 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Cochin —Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Staff Car Driver (Grade-I)	3*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) 66.67 per cent by promotion (ii) 33.33 per cent by deputation

(12)	(13)	(14)
Promotion Staff Car Driver (Grade-II) with six years regular service in the grade and subject to passing of trade test to drive heavy motor vehicles	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Cochin —Chairman 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Chennai —Member	Not applicable

688 48708-7

(12)	(13)	(14)
Deputation : Officials under the Central/State Governments	3. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Vizag 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin	—Member —Member
(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department, OR		Not Applicable.
(ii) with six years' of regular service in the post of Staff Car Driver (Grade-II) in the scale of pay of Rs. 4000—6000 subject to passing of a Trade Test of appropriate standard as prescribed by the Government.		
Note : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.		

[F. No. 3-22/2000-Fy. (Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर) भर्ती नियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर) भर्ती संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी सहायक (कम्प्यूटर) भर्ती नियम, 1996 की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ 4 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“5000-150-8000 रुपए”

(ii) स्तंभ 8 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर उपयोजन में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.सी.ए.) या विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान) में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य।

टिप्पण : अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले विभागीय अभ्यर्थी भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। तथापि, आयु सीमा, जो सीधे भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट है, विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में लागू नहीं है।”

[फा. सं. 3-7/2007-मत्स्यकी (प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 20 जुलाई, 1996 में सं. सा.का.नि. 301 तारीख 3 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 28th February, 2008

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Technical Assistant (Computer) Recruitment Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Technical Assistant (Computer) Recruitment Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Technical Assistant (Computer) Recruitment Rules, 1996, in the Schedule,—

(i) for the entry under column 4, the following entry shall be substituted, namely :—

“Rs. 5000-150-8000”

(ii) for the entries under column 8, the following entry shall be substituted, namely :—

Master's degree in Computer Applications (MCA) or Master's in Science (Computer Science) from a recognized university or equivalent.

Note : Departmental candidates possessing required educational qualifications can also apply directly. However, age limit as prescribed for direct recruits are not applicable in the case of departmental candidates”.

[F. No. 3-7/2007-Fy. (Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th July, 1996 vide number G.S.R. 301, dated the 3rd July, 1996.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मीन-उद्योग परिचालन संस्थान (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 के जहां तक उनका संबंध तकनीकी सहायक (क्राफ्ट और गीयर) और तकनीकी सहायक (प्रचालन) के पदों से है, और एकीकृत मीन-उद्योग परियोजना (वर्ग 3) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उसका संबंध गीयर टैक्नीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग के अधीन केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में तकनीकी सहायक (मत्स्य प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान कोचीन, तकनीकी सहायक (मत्स्य प्रौद्योगिकी) भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. तकनीकी सहायक (मत्स्य प्रौद्योगिकी)	4*(2008) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)

30 वर्ष तक
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती :—
1. प्राणी विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या
2. मत्स्य विज्ञान (नौचालन विज्ञान) में स्नातक या मत्स्य विज्ञान में स्नातक या समतुल्य के साथ एक वर्ष का अनुभव।

लागू नहीं होता दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
पुष्टिकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से भिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. निदेशक, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	—अध्यक्ष
2. उप निदेशक, केंद्रीय मत्स्य, नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	—सदस्य
3. समूह क अधिकारी, जिसके अधीन समूह 'ग' पदधारी कार्यरत है	—सदस्य
4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय मत्स्यकी, समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	—सदस्य

[फा. सं. 3-18/2007-मत्स्यकी (प्रशा.)]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2008

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to the post of Technical Assistant (Craft and Gear) and Technical Assistant (Operation) and the Integrated Fisheries Project (Class III) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the post of Gear Technician, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Fishing Technology) in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Technical Assistant (Fishing Technology) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (i) 'who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

68845708-8

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection of post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Technical Assistant (Fishing Technology)	4*(2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not Applicable	No	Upto 30 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instruction/orders issued by the Central Government)

Note 1 : The crucial date of determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India but not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Note 2 : In respect of post to which the appointment is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case, shall be last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Direct Recruitment :— (1) Master degree in Zoology or Fishery Science or equivalent; or (2) Bachelor of Fishery Science (Nautical Science) or Bachelor of Fishery Science or equivalent with one year experience	Not applicable	Two years	Direct Recruitment
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition		Circumstances in which Union Staff Selection Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)		(14)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of : 1. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training 2. Deputy Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training, Chennai 3. Group A Officer under whom the Group 'C' Official is working 4. Senior Administrative Officer, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering and Training	—Chairman —Member —Member —Member	Not applicable.

[F. No. 3-18/2007-Fy. (Admn.)]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.